



**Office of the Convenor, REAP-2017,
Rajasthan Technical University, Kota (Raj) – 324010.**

No. RTU/F(55)/REAP-2017/

Date:14/06/2017

भूतपूर्व सैनिक, विशेष योग्य जन तथा कश्मीरी विस्थापितों के लिये

काउन्सलिंग की सूचना

REAP-2017 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित (Ex-S), विशेष योग्य जन (Person with Disability), कश्मीरी विस्थापित (KM) श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्बंधित श्रेणी के समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा निर्धारित अंतरिम शुल्क के साथ काउन्सलिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है | काउन्सलिंग प्रक्रिया निम्न समय सारिणी अनुसार अकादमिक ब्लॉक-A, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, अकेलगढ़, कोटा, राजस्थान-324010 में की जाएगी :-

क्र. स.	श्रेणी	दिनांक / समय
(1)	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित	
(i)	EX-S1 (शहीद) Killed in action	सभी अभ्यर्थी 10.07.2017 प्रातः 10.00 बजे से
(ii)	EX-S2 Disabled in action and boarded out from service / Died while in service with death attributable to military service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to military service	सभी अभ्यर्थी 10.07.2017 प्रातः 11.00 बजे से
(iii)	EX-S3 Gallantry Award winner	सभी अभ्यर्थी 10.07.2017 अपरान्ह : 12.00 बजे से
(iv)	EX-S4 Ex-Serviceman (भूतपूर्व सैनिक)	सभी अभ्यर्थी 10.07.2017 अपरान्ह : 01.00 बजे से
(2)	विशेष योग्य जन (PwD)	सभी अभ्यर्थी 11.07.2017 प्रातः 10.00 बजे से
(3)	कश्मीरी विस्थापित (KM)	सभी अभ्यर्थी 11.07.2017 दोपहर 12.00 बजे से

उपरोक्त श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों, विशेष योग्य जन तथा कश्मीरी विस्थापितों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अरक्षित सीटों के लिए काउन्सलिंग होगी | चूंकि श्रेणीवार स्थान सीमित हैं, अतः संदर्भित श्रेणी में स्थान समाप्त होते ही उस श्रेणी की काउन्सलिंग समाप्त कर दी जाएगी | साक्षात्कार के समय सम्बंधित श्रेणी का मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/ पहचान पत्र, दसवीं उत्तीर्ण मूल अंक तालिका, 12 वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका, जे.ई.ई. मैन्स की अंक तालिका (अगर लागू हो तो) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे | विशेष योग्य जन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से राजस्थान का मूल निवास तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 % से अधिक अक्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा | भूतपूर्व सैनिक श्रेणी

के अभ्यर्थियों हेतु राजस्थान का मूल निवास का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का मूल डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, मूल पी.पी.ओ. एवं भूतपूर्व सैनिकों के अन्य सभी सम्बंधित मूल प्रमाण पत्र साथ लाना आवश्यक होगा | प्रवेश होने पर सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे तथा मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा | प्रवेश पश्चात अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्थानों में अग्रेषित कर दिए जाएंगे |

B.Tech/B.E/B.Arch में प्रवेश हेतु राज्य से अनुदानित (GAS) सीटों के लिए $(30,000/=)+(5000/=)-(10000/=)$ = कुल **25,000/- रूपये** (SC/ST/Girls हेतु $(15,000/=)+(5000/=)-(10000/=)$ = कुल **10,000/- रूपये** तथा स्ववित्त पोषित (SFS) सीटों के लिए $(70,000/=)+(7500/=)-(10000/=)$ = कुल **67,500/- रूपये** अंतरिम फीस लानी होगी | फीस Demand draft (Payable to Convenor, REAP-2017) अथवा चालान के माध्यम से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, अकेलगढ़, कोटा, राजस्थान-324010 में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बैंक समयानुसार जमा करवाई जा सकती है | उपरोक्त अंतरिम फीस राशी के अतिरिक्त जो भी फीस प्रवेशित संस्थान के लिए निर्धारित है, का अंतर अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में जमा करवाया जाना होगा | उपरोक्त वर्णित फीस राशी अंतरिम है | राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए फीस कमेटी द्वारा फीस निर्धारण उपरांत फीस की अंतर राशी सम्बंधित प्रवेशित संस्थान में जमा करवानी होगी | मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अथवा अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने की स्थिति में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा |

कश्मीरी विस्थापित श्रेणी हेतु इस काउन्सलिंग के अलावा कोई भी अन्य काउन्सलिंग/माध्यम से प्रवेश का अवसर उपलब्ध नहीं होगा | कश्मीरी विस्थापित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह अपना विकल्प पत्र ऑनलाइन भरें अथवा काउन्सलिंग के समय जब अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो तब प्रस्तुत कर देवे | जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन 10,000/= रूपये अग्रिम फीस राशी का भुगतान नहीं किया होगा, उन्हें इस काउन्सलिंग प्रक्रिया हेतु अपात्र माना जायेगा |

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित तथा विशेष योग्य जन श्रेणी के अभ्यर्थी अगर इस काउन्सलिंग के माध्यम से सीट प्राप्त करते हैं तो न तो वह ऑनलाइन काउन्सलिंग में भाग ले सकेंगे तथा न ही अपनी ब्रांच परिवर्तन हेतु Upward Movement तथा Internal Sliding की प्रक्रिया में पात्र होंगे |

उक्त सूचना <http://www.rtu.ac.in/RTU/reap> पर भी उपलब्ध है | अभ्यर्थियों को अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं | अतः अभ्यर्थियों को उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार उपस्थित होना है | जो अभ्यर्थी इस काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होतेही अथवा इस काउन्सलिंग में उपस्थित होने पर चाही गई सीट आवंटित नहीं होती है, उन्हें ऑनलाइन काउन्सलिंग द्वारा मेरिट अनुक्रम अनुसार उनके द्वारा भरे गये ऑनलाइन ऑप्शन फार्म अनुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी |

संयोजक, रीप-2017